

मा यदि हय गर्भवती
ओ दुधदानकारी
पुष्टिर अभाव पूरणे
छोट माह खाओया जरूरी



शिशुर बुद्धि गर्ठने
माथा ओ काँटासह
छोट माह
खाओयाते हवे यतने



शिशुर खावारे प्रतिदिन
अवश्यै प्राणिज
खावार दिन



छोट माह खेले
(मला, टेला, दारकिना)
रातकाना रोग थेके
मुक्ति मेले

